

## वनों का आह्वान

र.राजामणि'

काडु, वनम्, अडवी, जंगल चाहे जो भी पुकारो,  
है ये हमारे जीवन का, एक सहारा यारो।।  
जब सुनेंगे हम वन की कहानी, गूंजती उसमें भविष्य की वाणी।  
लोग तरसते हैं सब जगह पानी के लिए  
वन में पेड़, झाड़ी पत्ते भी पानी के लिए  
हम हैं ऋणी इनके, इनको खूब संवारो।।

काडु, वनम् .....  
पहाड़ों में देखो "शोला" जैसे वन, इसी से सब नदियां उत्पन्न।  
वन बन्धु हैं हमारे बहन और आदिम जाति भाई,  
वन गुण गाते सभी धर्म हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,  
वनों से मिलता है उल्लास सभी को प्यारो।।

काडु, वनम् .....  
सादा मिट्टी है हमारे जीवन का आधार, सदैव मिलता है वनों में इनका ही भण्डार  
फल-फूल, झाड़ी और पत्ते, औषधी, मधु  
इन्हीं वनों की गोद में खोजें आत्मा को साधु  
इनकी रक्षा के लिए तन, मन, धन सब वारो।।

काडु, वनम् .....  
पशुओं को चारा और मानव के लिए आहार, देते ही है हम सबको लेने का नहीं विचार  
गूंजती है बांस से बांसुरी और वीणा से राग  
सुनो, गाओ वनों के गुण ये सब उसका है त्याग  
कलरव करते खग प्रकृति में इनको जरा निहारो  
काडु, वनम् .....

शुरु हुआ इतिहास वनों में देखो नैमिषारण्य, दयालु वनों में देखो थलचर और जीव कारुण्य  
जड़ी, बूटी, जलाऊ लकड़ी सब मानव की सेवा में  
लेना नहीं देना सीखा है जंगलों की हवा ने  
अगर सुरक्षा नहीं की तो, होगा क्या विचारो ?

काडु, वनम्, अडवी, जंगल चाहे जो भी पुकारो,  
है ये हमारे जीवन का, एक सहारा यारो।।

सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम  
शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम  
बंदे मातरम  
वंदे मातरम

'भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार  
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

पूर्व प्रकाशित, मंत्रालय की  
पर्यावरण हिन्दी पत्रिका  
मार्च, 1994

## **INVOCATION TO FORESTS**

Call the forests by any name Kaadu, Vanam, Adavi or Jungle; they are the one great support for our very lives.

When we hear the story of the forests we hear the voices of the future. People everywhere want water but in the forests every tree, every shrub and every leaf stores water. We are indebted to them and must conserve them.

Won't you see the 'shola' forests in the hills where all our rivers take birth? Our women and tribal folk are friends of forests. You can hear the praise of our forests sung by all our religions whether Hindu, Sikh, Islam or Christian and it is in forests we can also find joy and recreation.

Our life depends too on common clay and soil of which there is abundance in our forests. Fruits, flowers, creepers and leaves along with medicine and honey. It is in the forests full of them that saints do search for their souls. Should we not conserve this treasure with our body, mind and soul?

Forests give fodder to our cattle and food to our people. Forests ever give and never think of taking anything. Thus from the forest and its bamboo and trees we have the music of the flute and the veena. Listen to this and sing the praise of supreme sacrifice by forests, which ring with the cries of the birds. Tarry a while to think of this and protect the forests.

Know ye the origins of history in the Naimisaranya forests and look at the wildlife in the compassionate forests. Can we afford to neglect this abundant and all giving source of fuel and medicines for mankind. Should we not protect this great forests whose very air breathes altruism.

Ending with the immortal lines from the National song which talks of all the good things on Mother Earth- Water, Flowers, gentle winds for the mountains and greenery everywhere. We salute this Mother.

**Composed by R. Rajamani**

**Set to Music by S.K. Rohilla**